

Finance Administration will be disposed of by 26-4-55.

Shri Biren Dutt: May I know whether the office at Gauhati, in their scrutiny of these applications, is causing delay? As that office has now been transferred to Calcutta, may I know which office will now do this work—Gauhati or Calcutta?

Shri J. K. Bhonsle: Either of them stood the question.

Shrimati Benu Chakravarty: May I know the office of the Central Government which deals with the details of work referred to it by the State Government of Tripura? Is it Gauhati office or Calcutta office?

Shri J. K. Bhonsle: Either of them. They are supposed to be in touch with the Government of West Bengal, and the Government of India comes in later.

हिमालय में पर्वतारोहण तथा वैज्ञानिक गवेषणा

* १६६. श्री भक्त वरुन : क्या प्रधान मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करूँगे जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) हिमालय में पर्वतारोहण तथा वैज्ञानिक गवेषणा के लिये इस वर्ष कितने विदर्शी दलों ने अनुमति मांगी है ;

(ख) वे कितने-कितने दर्शों के हैं ;

(ग) हिमालय के किस विशेष क्षेत्र में जाने की उनकी योजना है, और

(घ) उनकी क्या सुविधायें दी जा रही हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री साकत अली खां): (क) से (घ) इसका विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [वृत्तबन्धे परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २५]।

श्री भक्त वरुन : यह जो विवरण सभा-पटल पर रखा गया है इस से मालूम होता है कि चार

विदर्शी दल हिमालय में जाने वाले हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन के साथ कोई भारतीय आंबजरवर या लायजन आफिसर भी भ्रमण का प्रबन्ध किया गया है ?

श्री साकत अली खां : जी हाँ, बाज दल जो जाएंगे उनके साथ हमारे कुछ अफसर भी होंगे।

श्री भक्त वरुन : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या किसी भारतीय दल ने भी हिमालय पर जाने की अपनी इच्छा प्रकट की है और क्या उसे भी कोई सुविधायें दी जा रही हैं ?

श्री साकत अली खां : अभी तक ऐसी कोई दरखास्त हमारे पास नहीं आई है।

श्री भक्त वरुन : जो विवरण सभा-पटल पर रखा गया है उससे पता चलता है कि जो चौथी पार्टी है वह उस स्थान पर इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि उसे इनर लाइन तक जाने की अनुमति नहीं मिली। क्या गवर्नमेंट अनुभव करती है कि बाहर के आने वालों के रास्ते में इस तरह के प्रतिबन्ध लगने से रुकावट पड़ती है ?

श्री साकत अली खां : हम बाहर के आने वालों को इनर लाइन के बाहर वाले इलाकों में जाने की अनुमति नहीं देते।

अध्यक्ष महोदय : उनका सवाल है कि क्या इस से कोई रुकावट पड़ती है।

श्री भक्त वरुन : क्या गवर्नमेंट अनुभव करती है कि इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगने से इन दलों द्वारा जो वैज्ञानिक सर्वे होता है उसमें किसी तरह की अड़चन है या कोई कमी आती है ?

श्री साकत अली खां : जहाँ तक हमारे सर्वे करने का ताल्लुक है कोई रुकावट का सवाल पैदा नहीं होता।

बुनाई का सामान

* १६६१. श्री राम शंकर झा : क्या बाबिख तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करूँगे कि सुधरें हुए किस्म के बुनाई के सामान के

लिये किये गये उस प्रयोग के क्या परिणाम निकले जाँ टैक्निकल सहयोग प्रशासन के एक सदस्य, श्री एच० सी० फोर्ड द्वारा किया गया है और जिसके लिये सरकार द्वारा ५,००० रुपये का एक अनुदान स्वीकृत हुआ था ?

The Minister of Commerce and Industry (Shri T. T. Krishnamachari): Tests on the loom assembled by Mr. H. C. Ford have not yet been concluded.

INTEGRATED PUBLICITY PROGRAMME

*1982. **Shri M. D. Joshi:** Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to lay a statement on the Table of the House showing:

(a) the number of Editors who have been appointed for the different Regional Languages under the Integrated Publicity Programme of the First Five Year Plan;

(b) their number, State-wise;

(c) the nature of the work entrusted to them; and

(d) the extent and progress of the work done so far in each of the languages?

The Minister of Information and Broadcasting (Dr. Keskar): (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House which gives the requisite factual information. [See Appendix IX, annexure No. 36]. The appointments are not made State-wise but language-wise. The nature of the work is mainly to prepare pamphlets and other publications in regional languages.

Shri M. D. Joshi: How many pamphlets have been prepared so far and in what languages?

Dr. Keskar: This year about 62 pamphlets have been brought out; the total number of pamphlets planned is 318.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: In view of the fact that Government is propagating the broadcast of news in the regional languages, may I know

whether Government propose to have regional news bulletins separately? So far Government depend upon the Press Trust of India's report. I want to know whether Government propose to have separate regional broadcasting arrangements.

Dr. Keskar: This relates to the Five Year Plan publicity pamphlets and their editors. I do not know whether broadcasting arises out of this.

Shri M. D. Joshi: May I know whether any special facility is afforded to these editors similar to those afforded to every newspaper editor to go out and see the projects to get information first-hand?

Dr. Keskar: These editors are not editors in the sense of newspaper editors. They vet the pamphlets written by outsiders. They edit, change or adjust them, according to the requirements of the Publications Division. We do take steps to see that these editors who write the pamphlets have some practical contact with the conception of the work that they have to undertake.

Shrimati Benu Chakravartty: Is there any publication giving the schemes under which the villagers can have maternity and child welfare centres either under the Five Year Plan, Local Development Works or Community Projects and such other schemes?

Dr. Keskar: I would not be able to give the exact information but a pamphlet like this has been planned not under the Five Year Plan publicity but under the Central Social Welfare Scheme. I will be able to give the information, if the hon. Member so desires, within a day or two.

COPRA AND COCONUT OIL

*1984. **Shri Achuthan:** Will the Minister of Commerce and Industry be pleased to state:

(a) whether the Ceylon Government reduced the export duty on copra or coconut oil recently;